



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अगस्त 22, 2025

संख्या 34

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	अगस्त 16	अगस्त 08	अगस्त 15	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3482568	3779127	3788192	9066	305624
1.1 संचलन में नोट	3482555	3779110	3788176	9067	305621
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	17	16	-1	2
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	100	-1	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	983701	926802	954551	27749	-29150
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8250	8472	8122	-349	-128
2.6 अन्य बैंक	54693	53047	52726	-321	-1967
2.7 अन्य	656093	759652	717173	-42479	61080
3 अन्य देयताएं	1855035	2347314	2349220	1906	494185
कुल देयताएं / आस्तियां	7040483	7874556	7870127	-4428	829644
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5003476	5150654	5161298	10644	157822
2 सोना	504594	755391	750161	-5229	245567
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1317254	1779572	1774610	-4962	457356
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	26767	42792	34130	-8662	7363
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11850	4352	1187	-3165	-10663
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	163219	119915	126568	6653	-36651
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	11258	19817	20110	293	8851

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अगस्त 15, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6086782	695106	5652	1488	374642	26780	422705	20442
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5130564	585903	10649	1924	279730	18345	164105	-5666
1.2 स्वर्ण	750161	85667	-5230	-493	81999	7491	245567	25564
1.3 विशेष आहरण अधिकार	164467	18782	162	41	9177	613	10484	441
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	41591	4754	70	15	3735	331	2549	104

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अगस्त 22, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 957697 करोड़	2025													
	अगस्त 09	अगस्त 10	अगस्त 11	अगस्त 12	अगस्त 13	अगस्त 14	अगस्त 15	अगस्त 16	अगस्त 17	अगस्त 18	अगस्त 19	अगस्त 20	अगस्त 21	अगस्त 22
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	1002699	999793	954809	995289	963629	966157	961581							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	104.7	104.4	99.7	103.9	100.6	100.9	100.4							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	अगस्त 08, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	341956	-466	-3048	32542	38794	50533
1.2 बैंकों से उधार	100840	-4366	-51466	-11136	-59054	-30123
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	25576	3249	4512	-4340	9365	-51388
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23473888	124061	854417	893287	2091718	2144245
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	4.2	4.0	10.9	10.1
2.1.1 मांग	2846826	-29542	-29293	148777	232491	432265
2.1.2 मीयादी	20627062	153603	883709	744510	1859227	1711980
2.2 उधारियां	839856	2302	72696	-75393	53275	-10783
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1021630	31958	-29153	-40002	50066	113356
3 रिज़र्व बैंक से उधार	4352	2446	-214891	-307114	-22582	-3473
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1004452	3748	38740	40163	40156	-55204
4.1 उपलब्ध नकदी	77650	-4825	-829	-4224	-18856	-10953
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	926802	8572	39569	44387	59012	-44250
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	259295	-4902	2324	43494	7373	58644
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	16804	-1107	614	-9034	-10268	3835
5.3 बैंकों को अग्रिम	26295	-919	-5263	-13209	-2608	-16810
5.4 अन्य आस्तियां	72533	12633	7647	5180	27566	-50537
6 निवेश	6749293	22465	221680	51365	414497	421055
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.3	3.6	0.8	7.0	6.7
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6748834	22550	222255	51536	414877	420970
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	459	-85	-575	-171	-380	86
7 बैंक ऋण	18606042	104664	448137	362069	2019509	1725741
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.6	2.7	2.0	13.6	10.2
7 क.1 खाद्य ऋण	52281	-4393	4850	15750	8001	24350
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18553760	109058	443287	346319	2011508	1701390
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18268274	105108	433553	358422	1965615	1700417
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	77796	702	6740	2834	23552	10590
7 ख.3 भुनाए गए	224929	-477	9474	3870	34720	18098
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13178	-137	-5	-1943	-1567	-3229
7 ख.5 भुनाए गए	21864	-531	-1624	-1113	-2812	-136

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	अगस्त 16	जुलाई 18	जुलाई 25	अगस्त 01	अगस्त 08	अगस्त 15
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.29	..	4.28	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	79.24	..	79.26	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	33.46	..	40.53	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	28.81	..	28.75	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	3.76	..	5.75	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.60	7.95/8.20	7.95/8.20	7.85/8.15	7.85/8.15	7.85/8.15
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.30	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिता औसत)	6.48	5.35	5.55	5.41	5.40	5.43
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.62	5.39	5.39	5.40	5.46	5.49
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.73	5.54	5.53	5.52	5.55	5.57
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.72	5.59	5.57	5.57	5.58	5.59
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.91	6.31	6.43	6.41	6.45	6.47
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.96	86.20	86.52	87.35	87.62	87.49
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	92.22	100.16	101.73	99.88	102.05	102.38
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.05	1.55	1.81	1.70	1.57	1.63
3-माह	1.29	1.60	1.76	1.68	1.70	1.77
6-माह	1.59	1.74	1.85	1.77	1.85	1.91

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अगस्त 08	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28290469	150595	0.5	869742	3.5	1003879	3.7	2330979	9.9	2480866	9.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3727565	20107	0.5	15060	0.4	96813	2.7	210333	6.5	302229	8.8
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	2990208	-28458	-0.9	-29142	-1.1	150185	5.3	237167	10.2	432462	16.9
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21462974	156866	0.7	885659	4.7	760466	3.7	1862608	10.4	1729155	8.8
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	109722	2080	1.9	-1834	-1.9	-3585	-3.2	20870	29.1	17020	18.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8680407	139090	1.6	136338	1.8	169582	2.0	272856	3.7	940499	12.2
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1615236	113086		-85461		107131		-144437		507485	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7065171	26004	0.4	221799	3.5	62451	0.9	417293	6.7	433014	6.5
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	19407493	106513	0.6	441236	2.6	339365	1.8	2045300	13.1	1763426	10.0
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	12425	42		-3967		-25821		6327		1985	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	19395068	106471	0.6	445202	2.6	365185	1.9	2038973	13.1	1761441	10.0
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6503298	36038	0.6	270025	4.9	354771	5.8	772186	15.2	665770	11.4
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38057	0	0	874	2.6	1426	3.9	3158	10.1	3751	10.9
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6338787	131046	2.1	-21270	-0.4	-138737	-2.1	762521	16.3	892580	16.4
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2333098	97230	4.3	26184	1.5	185672	8.6	265894	17.1	516780	28.5

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अगस्त 15	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4951207	35997	0.7	23913	0.5	121964	2.5	175916	3.9	295847	6.4
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3826234	9067	0.2	5400	0.2	101786	2.7	195598	5.9	309373	8.8
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	1015400	27079	2.7	21195	2.1	23911	2.4	-38762	-3.6	-31244	-3.0
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	109574	-148	-0.1	-2681	-2.8	-3733	-3.3	19079	26.2	17719	19.3
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1642610	27373		-78563		134504		-118804		527960	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1608522	36035		-98729		133062		-130228		520596	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-305800	4904		-107020		-186785		-124407		-152633	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-318970	4159		-103217		-161709		-129849		-155200	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5910984	5266	0.1	267716	5.1	360036	6.5	731866	15.3	402185	7.3
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38057			874	2.6	1426	3.9	3158	10.1	3751	10.9
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2334644	1546	0.1	59094	3.3	187217	8.7	315896	20.6	485416	26.2

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)		
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	ऋय			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
अगस्त 11, 2025	-	-	-	44790	1071	97719	-	-	-	-141438		
अगस्त 12, 2025	-	-	-	-	1271	83758	-	-	-	-82487		
अगस्त 13, 2025	-	-	-	-	1814	111927	345	-	-	-109768		
अगस्त 14, 2025	-	-	-	182790	1127	132763	400	-	-	-314026		
अगस्त 15, 2025	-	-	-	-	134	119519	-	-	-	-119385		
अगस्त 16, 2025	-	-	-	-	214	133135	-	-	-	-132921		
अगस्त 17, 2025	-	-	-	-	239	120519	-	-	-	-120280		

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जून	जुलाई	जून	जुलाई	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	190.2	193.0	194.2	196.0	0.9	2.1	1.6
1.1 ग्रामीण	192.2	195.3	195.5	197.6	1.1	1.9	1.2
1.2 शहरी	187.8	190.3	192.6	194.2	0.8	2.3	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	141.4	142.7	145.0	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.0	155.3	153.8	154.4	0.4	-0.3	-0.6
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	192.3	197.8	185.8	188.0	1.2	1.3	-5.0
3.2 ईंधन और बिजली	146.9	148.2	143.0	144.6	1.1	-4.9	-2.4
3.3 विनिर्मित उत्पाद	142.0	141.7	144.8	144.6	-0.1	0.0	2.0

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जुलाई 25, 2025	508452	18551	5.59 - 6.63
अगस्त 08, 2025	511313	27982	5.64 - 6.24

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जुलाई 31, 2025	547229	73859	5.57 - 13.84
अगस्त 15, 2025	554480	56758	5.68 - 12.67

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अगस्त 16, 2024	अगस्त 08, 2025	अगस्त 15, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	16728	27991	24392
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	5756	1487	8303
3 त्रिपक्षीय रेपो	705300	659645	803167
4 बाजार रेपो	615520	658871	794301
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	6329	12377	11835

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अगस्त 15, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	11454	11523	76088	208788
182-दिवसीय	53554	50747	17281	204181
364-दिवसीय	78259	77819	44789	349489
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अगस्त 15, 2025 तक)	2024-25 (अगस्त 16, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अगस्त 15, 2025 तक)	2024-25 (अगस्त 16, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	578000	536697	1400697	442914	341151	1039275
2. राज्य सरकारें	332818	253354	1073310	222167	166991	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल द्वारा प्रकाशित।